

एस.एन. बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र
कोलकाता, पश्चिम बंगाल
(भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान,
टेक्नोलोजी भवन, नया मेहरौली रोड, नई दिल्ली - 110016)

संदर्भ : एसएनबी/60.4/15-16/001

दिनांक : 01.04.2015

एस.एन.बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र के निदेशक पद की नियुक्ति हेतु आवेदन/नामांकन

सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र में मौलिक विज्ञान के ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान गतिविधियां की जाती हैं। केंद्र में भौतिक, रासायनिक, एवं गणितीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियां (सैद्धांतिक, कंप्यूटेशनल एवं प्रयोगात्मक) की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र ने नयी प्रयोगात्मक अनुसंधान सुविधाओं एवं कंप्यूटेशनल सुविधाएं स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है (हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं : <http://newweb.bose.res.in>)। केंद्र में पोस्ट एम.एससी एवं पोस्ट बी.एससी इंटीग्रेटेड पीएच.डी अनुसंधान कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

निदेशक के पद हेतु बेहद प्रेरित एवं ऊर्जावान वैज्ञानिकों/ उत्कृष्ट शिक्षाविदों से एस.एन. बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र द्वारा आवेदन/नामांकन आमंत्रित किया जाता है, जो कि एक भारतीय नागरिक हो। आदर्श उम्मीदवार विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और उपलब्धियों के साथ एक ऊर्जावान नेतृत्वकर्ता और अनुसंधान के इन क्षेत्रों में समर्पित संस्थान हेतु एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए।

खोज सह चयन समिति इस विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों एवं साथ ही साथ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षाविदों के अध्यक्षताओं, राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निदेशकों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भांति प्रख्यात शैक्षिक व्यक्तियों से प्राप्त नामांकनों पर विचार करेगी।

(क). पदनाम : निदेशक

(ख). वेतनमान : केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ₹0 80,000/- प्रति माह (निर्धारित) भत्तों के साथ।

(ग). भर्ती की पद्धति :

क. सीधी भर्ती

ख. प्रतिनियुक्ति के आधार पर, अल्पकालिक अनुबंध सहित

ग. पुनर्नियोजन

(घ). कार्यकाल :

3 से 5 वर्ष के लिए अथवा भारत सरकार के नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु(वर्तमान में 60 वर्ष तक) प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(ङ). परिवीक्षा अवधि : 1 वर्ष ।

(च). आयु सीमा : 56 वर्ष से अधिक नहीं, 01 जनवरी, 2015 तक।

(छ). योग्यता

आवश्यक :

विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट की डिग्री, विशेष रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान अथवा गणित के क्षेत्र में हो।

वांछनीय :

i). पोस्ट डोकटोरल अनुसंधान।

ii). उच्च स्तर का मूल प्रकाशित कार्य।

iii). शिक्षाविद फ़ेलोशिप की भांति सम्मान के द्वारा उच्च पेशागत उत्कृष्टता का प्रमाण।

iv). महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं के प्रबंधन में अनुभव।

(ज). सीधी भर्ती हेतु आवश्यक अनुभव :

(क). संकाय के रूप में औद्योगिक एवं शैक्षिक संस्थानों और/अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में/ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में वैज्ञानिक के रूप में कम से कम 25 वर्षों का शोध अनुभव हो, जिसमें से किसी अनुसंधान समूह में वरिष्ठ प्रबंधन पद पर, संस्थान के बाहर समितियों की अध्यक्षता/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक क्षमता, योजना एवं विकास, बजट एवं वित्त, संयोजन और उक्त प्रकार के संगठनात्मक मामलों में कम से कम 6 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(ख) विज्ञान की किसी भी शाखा में अनुसंधान एवं विकास कार्यों का अनुभव, विशेष रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान अथवा गणित के क्षेत्र में हो।

[ध्यान दें : अनुसंधान एवं विकास कार्यों का अनुभव पीएच.डी. अवधि सहित मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष के बाद से गिना जाएगा।]

(झ). प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड

भारत में केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ अर्ध सरकारी, वैधानिक अथवा स्वायत्त संस्थानों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक,

(क). (i). अनुरूप पद धारण अथवा

(ii). ₹0 75500-80000 ग्रेड (एचएजी+) अथवा समकक्ष धारण पद के वेतन बैंड में 01 वर्ष नियमित सेवा के साथ।

(iii). ₹0 67000-79000 (एचएजी) अथवा समकक्ष धारण पद के वेतन बैंड में 03 वर्ष नियमित सेवा के साथ।

(iv). ₹0 37400-67000+ 10,000 ₹0 ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष धारण पद के वेतन बैंड में 07 वर्ष नियमित सेवा।

और

(v). जिनके पास उपरोक्त पैरा "छ" में उल्लेखित आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं पैरा "ज" में उल्लेखित अनुभव हो ।

कार्य विवरण :

केंद्र का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक के पास होगा एवं केंद्र द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यक्रमों और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की परियोजनाओं को पहचान देने में वे केंद्र को उच्च-स्तरीय नेतृत्व प्रदान करेंगे। वे केंद्र के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। रचनात्मकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और केंद्र के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग करेंगे। वे आपसी बातचीत और केंद्र द्वारा किये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों और अनुसंधान के क्षेत्र के साथ काम कर रहे विशेषज्ञों के साथ तालमेल स्थापित करेंगे। वे केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में इन दोनों क्षेत्रों और बहु संस्थागत सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

(ट). आवेदन/नामांकन प्रक्रिया :

आवेदन सादे कागज पर नीचे दिये गये प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 के अनुसार टाइप करके " कुलसचिव, एस.एन.बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, ब्लॉक : जे डी, सेक्टर -III , साल्ट लेक, कोलकाता-700098" पते पर 15 मई, 2015 तक डाक द्वारा पहुँच जाना चाहिए।

नामांकन के मामलों में, प्रख्यात व्यक्ति किसी भी एक उम्मीदवार को नामांकित करते हुये अपनी सिफारिशों के साथ उक्त उम्मीदवार के आवेदन उपरोक्त पते पर 15 मई, 2015 तक डाक द्वारा भेज सकते हैं।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चांभा जिले के पंगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्वद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन(नामांकन समेत) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2015 है ।

सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम द्वारा भेजा जाना चाहिए। वे, हालांकि जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, समय सीमा को पूरा करने के लिए एक अग्रिम प्रति भेज सकते हैं।

योग्यता एवं अनुभव की पुष्टि हेतु स्वयं अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आवेदन के साथ भेजा जाना चाहिए। कृपया मूल प्रति न भेजें।

आवेदन युक्त लिफाफा " निदेशक के पद हेतु आवेदन, एस.एन.बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता" के साथ लिखा होना चाहिए।

प्रारूप-1
(आवेदन)

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. वर्तमान पद :
3. आवासीय पता :
4. ई-मेल पता :
5. दूरभाष संख्या (मोबाइल एवं लैंड लाइन) :
6. जन्म तिथि :
7. स्थायी पता :
8. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने से लेकर कालक्रम के अनुसार शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा :
9. वर्तमान वेतन बैंड + ग्रेड वेतन :
10. अनुभव :
11. प्रकाशनों की सूची :
12. आवेदन की तिथि तक प्राप्त पुरस्कारों/सम्मान/प्रतिष्ठित शैक्षिक अध्येतावृत्ति/उद्धरण का विवरण, एच इंडेक्स इत्यादि :
13. कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण (पूरा/प्रगति में) :
14. कोई अन्य सूचना :
15. घोषणा :

पासपोर्ट साइज
आकार का फोटो
चिपकायें

मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि दी गयी पूर्ववर्ती जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मेरे द्वारा ऊपर दिये गये कथन में किसी भी सामग्री तथ्य या तथ्यात्मक जानकारी को दबाया नहीं गया है। यदि, मैंने कोई गलत जानकारी दी है या किसी भी सामग्री तथ्य या तथ्यात्मक जानकारी को दबाया है, तो मेरी सेवाएँ बिना किसी सूचना या उसका कारण बताये बिना समाप्त की जा सकती है। मैं किसी भी परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ जो सरकार के अंतर्गत रोजगार के लिए मेरी फिटनेस क्षीण कर सकती है।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रारूप-2

(संक्षिप्त जीवन वृत्त हेतु)

(टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के 12 साइज में ए-4 साइज के 2 पृष्ठों से ज्यादा न हो)

1. नाम एवं पता :
2. जन्म तिथि एवं 01.01.2015 तक आयु, वर्ष एवं महीना समेत :
3. योग्यता (डिग्री का उल्लेख, संस्थान एवं सम्मानित वर्ष) :
4. वर्तमान पद, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन :
5. अनुभव (पद का उल्लेख, संस्थान एवं प्रत्येक पद की धारण तिथि, अलग से भी उल्लेख किया जाय (क). पीएच.डी. अवधि सहित मास्टर डिग्री के बाद अनुसंधान एवं विकास कार्य के अनुभव के कुल वर्षों की संख्या (ख). अन्य अनुभवों के कुल वर्षों की संख्या) :
6. प्रकाशनों की कुल संख्या :
7. सम्मान एवं पुरस्कार :
8. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों की अध्येतावृत्ति, प्रोफेशनल सोसाइटियों की सदस्यता :
9. अतिरिक्त संबन्धित सूचना, यदि कोई हो :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर